

**BANARAS BEADS LIMITED**AN EXPORT HOUSE RECOGNISED BY GOVERNMENT OF INDIA
CIN No. L01131UP1980PLC004984AN ISO
CERTIFIED
COMPANY

| | |
|---------------------|--|
| Regd. & Head Office | : A-1, Industrial Estate, Varanasi - 221106 (INDIA) |
| Phones | : +91-542-2370161-4 (4 Lines) |
| Fax | : +91-542-2370165, 2370214 |
| E-mail | : rksingh@banarasbead.com investor@bbinvestor.com |
| Website | : www.banarasbead.com |

Manufacturers & Exporters of All kind of Beads, Fashion Jewelry and Accessories.

To,
The BSE Limited
Department of Corporate Services,
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai - 400001

August 20, 2025
The National Stock Exchange Of (I) Ltd.,
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No.C/1, G-Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai - 400 051

Sub.: Intimation under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation 2015 of published notice under SEBI circular No. SEBI/HO/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025.

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015, we are herewith attaching copy of Notice published in Business Standard (English) edition and in Business Standard (Hindi) edition newspaper on 20.08.2025 in reference of SEBI circular No. SEBI/HO/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025, towards **opening of special window for re-lodgment of transfer requests of physical shares.**

Kindly take the above information on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **BANARAS BEADS LIMITED**

(R.K. SINGH)
COMPANY SECRETARY
FCS- 4071
Encl. As above

Market wisdom, straight from the sharpest minds in the game.

Cut through the noise every day with expert columns that decode trends before they unfold — featuring *Shankar Sharma, Andrew Holland, Nilesh Shah, Tamal Bandyopadhyay*, and more, only in Business Standard.

To book your copy, SMS reachbs to 57575 or email order@bsmail.in

BANARAS BEADS LIMITED (An ISO Certified Company)
(An Export House Recognised by Government of India)
Regd. & Head Office: A-1 Industrial Estate, Varanasi-221009
Ph: 0542-2370161-64 (4lines) E-mail: investor@bbnlivestor.com
(GSTIN No: 09AACZ2023L202) CIN: 10AL131UP1900L009896

NOTICE TO SHAREHOLDERS
OPENING OF SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGE-MENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES
Notice is hereby given that in terms of SEBI circular No. SEBI/HO/MIRSD-POD-PI/CIR/2025/97 dated July 2, 2025, a special window has been opened only for re-lodgment of transfer deed, which were lodged prior to the deadline of April 1, 2019 and reject/ returned/ not attended, due to deficiency in the documents/ process or otherwise. The re-lodgment window shall remain open for a period of six months i.e. from July 7, 2025 till January 6, 2026. Eligible shareholders are requested to contact the Company's Registrar and Transfer Agent (RTA) Mas Services Limited at e-mail itd_investor@massev.com at their office at T-34, Lind Road, Okhla Industrial Area, Phase-II New Delhi 110020 or the Company at investor@bbnlivestor.com for further assistance. During this period the securities that are re-lodged for transfer (including those requests that are pending with the Company/RTA, as on date) shall be issued only in demat mode, once all the documents are found in order by RTA. The lodger must have demat account and provide its Client master List (CML), along with the transfer documents and share certificates, while re-lodging the documents for transfer with RTA.

For Banaras Beads Limited
Sd/-
(R.K. Singh)
Company Secretary/
Compliance Officer
FCS-4071

Place : Varanasi
Date : 19/08/2025

Dr.Reddy's

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES
Notice is hereby given that the following Share Certificates issued by the Company are reported to have been lost or misplaced and the registered Shareholders/Clients thereof have applied to the Company for the issue of duplicate share certificates.

| S. No. | Folio No. | Name of the Shareholder | Certificate No(s) | No. of Shares | Distinctive No. From - To |
|--------|-----------|--------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|
| 1 | B00427 | Shant Suryakant Nissar | 20779 | 100 | 7737688-7737787 |
| 2 | M01522 | Mahendra Kumar Sunara | 25227 | 130 | 9429424-9429453 |
| 3 | M00129 | 17981-17982 | 655 | 1407641-1407705 | |
| 4 | S01879 | Sunil Kopal Vihes Mohre | 11527 | 200 | 55813495-55813694 |
| 4 | D00429 | Deepak Ramakant Sardesai | 9808 | 200 | 55355987-55356186 |
| 5 | M0037 | Meena Champak Nandu | 4865 | 50 | 788101-788150 |
| 6 | R01405 | Champak Umash Nandu | 19656 | 40 | 1477196-1477235 |
| | | Rajender Kumar Jain | 4536 | 70 | 3042394-3042443 |
| | | | 85148 | 50 | 8025704-8025753 |

*Shares of Rs.5/- face value **Shares of Rs.10/- face value

The public is hereby cautioned against dealing in any manner with the above share certificates. Any person(s) who has/have any claim in respect of the said share certificate(s) should lodge claim(s) at the Company's Regd. Office: 8-2-337, Road No.3, Banjara Hills, Hyderabad - 500 034 within 15 days of publication of this notice after which no claim(s) will be entertained and the Company will proceed to issue duplicate share certificate(s).

For Dr. Reddy's Laboratories Limited
K Ranchod Singh
Company Secretary, Compliance Officer
and Head - CSR

Place : Hyderabad
Date : 19/08/2025

Dr. REDDY'S LABORATORIES LIMITED
Regd. Office: 8-2-337, Road No.3, Banjara Hills, Hyderabad - 500 034
CIN: L85107TG1984PLC004007; Tel: 91 40 4800 2900; Fax: 91 40 4800 2999
email: shares@drreddys.com; website: www.drreddys.com

EXIDE INDUSTRIES LIMITED
CIN: L31402WB1947PLC014919
Regd. Office: 'Exide House', 59E Chowringhee Road, Kolkata - 700 020 Phone: 033 2302340/02283 2118; E-mail: exideindustrieslimited@exide.co.in; Website: www.exideindustries.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS
(100 Days Campaign - "Saksham Niveshak")
In line with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) circular dated 16th July 2025, your Company is pleased to launch a 100 Days Campaign titled "Saksham Niveshak", which will be available till 6th November 2025. This initiative aims to proactively engage with shareholders and assist them in updating their records and claiming their rightful entitlements, thereby avoiding the transfer of their shares and undivided dividends to the Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA).

Benefits to Shareholders

- Update PAN, Nomination details, Contact information (postal address, mobile number), Bank account details, and Specimen signature.
- Ensure dividends are credited directly to the shareholder's bank account.
- Avoid the process of reclaiming dividends from IEPFA after transfer.

Required Forms and Documents
Shareholders are requested to submit the following forms and documents:

- Form ISR-1: Duly filled and signed, with self-attested KYC documents.
- Form ISR-2: Duly filled and signed, with banker's attestation of your signature and original cancelled cheque (with your name printed) or self-attested bank passbook/statement.
- Form SH-13: For adding a nominee.
- Form ISR-3: If you wish to opt out of nomination.

You can also download these forms from the Company website: www.exideindustries.com

Submission Instructions
Please fill in and deliver the completed forms along with the required documents to our Registrar & Transfer Agent (RTA) at the following address: C B Management Services (P) Limited, Rasool Court 5th Floor, 20, Sir R N Mukherjee Road, Kolkata - 700 001; Telephone - +91 33 69066200 E-mail: rtat@cbmsl.com

For Exide Industries Limited
Sd/-
Jitendra Kumar
Company Secretary and President
(Legal & Corporate Affairs)
ACS No. 11159

Place: Kolkata
Date : 19th August 2025

In fast or fragile markets, insight brings perspective.

Decode market moves with sharp, fast, expert analysis — every day with **Stocks in the News** in Business Standard.

To book your copy, SMS reachbs to 57575 or email order@bsmail.in

Business Standard Insight Out

ANGEL ONE LIMITED

Regd. Off: 601, 6th Floor, ACKRUTI STAR, CENTRAL ROAD, MIDC, ANDHERI EAST, MUMBAI -400093

Centralized desk : 18001020 Email id : support@angellone.in

Member of : NSE / BSE / BSE REMISER / MCX / IFCX / NCDX

Member ID: NSE : 12798, BSE : 812, MCX : 12685, NCDX : 00220 SEBI Registration No: IN2000161534

NOTICE

This is to inform all concerned that we have initiated the process of cancellation of registration of our below mentioned Authorised Person (AP) due to regulatory non-compliance.

| Name of SBAP | Trade Name of SBAP | Regd Address of SBAP | AP Registration No. |
|------------------|--------------------|--|--|
| DEEP CHANDRA | DEEP CHANDRA | Shop No.25 Khallabad Naveen Mandi Sthal Khallabad Sarai Kaur Nagar 272175 Uttar Pradesh | NSE : AP0397616811 |
| NARENDRA SINGH | NARENDRA SINGH | Sarai Pukhta Fatehpur SikriKhalil Kirali Fatehpur Sikri Agra 283110 Uttar Pradesh | NSE : AP0397614811 |
| SHIVASIA JAISWAL | SHIVASIA JAISWAL | Shop Number 17 Awads Wicks Colony Goda 271001 Uttar Pradesh | NSE : AP0397617781 |
| DHARMENDRA KUMAR | DHARMENDRA KUMAR | Aura Ayer Bazar Sindhoro Road - Varanasi 221002 Uttar Pradesh | NSE : AP0397600361 BSE : AP01061201162511 MCX : AP0106155538 |
| HARSH JAISWAL | HARSH JAISWAL | 2/356 Vinmra Khadgmonti Nagar Gomti Nagar Lucknow 226010 Uttar Pradesh | NSE : AP039755921 |
| ANISH NARAYAN | ANISH NARAYAN | 3090/3, Purostom Das Tandon Marg Near Dholghat Petrol Pump Chaurahaghipath Colony Civil Lines Prayagraj 211001 Uttar Pradesh | NSE : AP0397608191 BSE : AP01061201163971 MCX : AP0106167849 |

Any person dealing with the above-mentioned Authorised Person herewith shall do so at their own risk. ANGEL ONE LTD. shall not be liable for any dealings with the said entity post the issuance of this notice. Investors having any queries or concerns regarding this matter are requested to contact ANGEL ONE LTD. within 15 days from the date of issuing this notice.

For ANGEL ONE LTD Sd/-
Date : 20.08.2025
Place : Uttar Pradesh
Authorised Signatory

State Bank of India REGIONAL OFFICE VI JAUNPUR POSSESSION NOTICE OF IMMOVABLE PROPERTY

Possession Notice (Immovable Property) SARFAESI ACT 2002 Under section 13(4) Act

Whereas, the undersigned, being the Authorised Officer of the State Bank of India, Shabanpur under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (Act 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13 (2) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice calling upon following Borrower to repay the amount mentioned herein below within 15 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby issued to the borrower/mortgagor and public in general that the Authorised Officer has taken possession of the following mortgaged property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of Act read with rule 8 & 9 of the said Rules. The borrower/mortgagor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the State Bank of India Branch Shabanpur, Dist. - Jaunpur outstanding amount with further interest at contractual rate of interest.

| S. Branch No. | Name of a/c and Name of Guarantor | Description of mortgaged Property | Date of Demand Notice | Date of Possession | Amount Outstanding |
|---------------|--|--|-----------------------|--------------------|---|
| 1 | State Bank of India Branch, Shabanpur A/c No. 30628943 | M/S SANA OIL MILL (Prop. Sana khatun and Guarantor M. Akaram S/o Ab-dul hai n/o vill-Dakaha, South- Land of Samtha Alhas Butarg East- Land of Ramraj East- Land of Pherai Sarpatatha, Shaganj Jaunpur. West-Sarpatatha to Samdhipur Road | 28.05.2025 | 18.08.2025 | Rs 2377288.00 + int + misc. expenses As on 28.05.2025 |

Note - Above Notice should also be treated 15 days notice for sale under rule 6, 8 & 9. Published with due diligence. In case of any error or respective branch may be contacted.

DATE : 20.08.2025 PLACE : JAUNPUR AUTHORISED OFFICER, STATE BANK OF INDIA

Canara Bank SPECIALISED STRESSED ASSET MANAGEMENT BRANCH SAM BRANCH, 1-7, 2ND FLOOR, TSR COMPLEX, SP ROAD, SECUNDERABAD-500003

Ref: 7619-LIT-SALE NOTICE 10(A).2025 Date:18.08.2025

CORRIGENDUM TO SALE NOTICE NOTICE OF POSTPONEMENT OF E-AUCTION SALE DATED 20.08.2025.

Refer to E-Auction Sale Notice dated 20.08.2025 for Sale of Immovable Properties under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(i) (R/1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 - in the matter of M/s. LANCOR INFRASTRUCTURE LIMITED (Company under CIRP).

This notice is to inform the Public that the E-auction sale of Secured Assets scheduled on 20.08.2025, 11:30 AM to 12:30 PM (With unlimited extension of 5 minutes duration after till the conclusion of the sale) is hereby postponed due to request from the intending buyers seeking time for completing the Due-Diligence.

The original Sale Notice was published in Business Standard (English) & Business Standards (Hindi) on 31.07.2025 and Sakshyam (Telugu) on 31.07.2025 and uploaded in Canara Bank's website (www.canarabank.com) and e-auction service provider M/s PSB Alliance Pvt Ltd. website: <https://banknet.com>.

THE REVISED SCHEDULE OF THE AUCTION IS AS UNDER:

Date & Time of Auction : 06.09.2025, 11:30 A.M to 12:30 P.M.
(With unlimited extension of 5 minutes duration after till the conclusion of the sale)

The Earnest Money Deposit shall be deposited on or before 05.09.2025 at the Registrar of India.

The reserve price for will be Rs. 25,39,00,000/- and the earnest money deposit will be Rs.2,53,90,000/-.

Interested buyers may contact Mr. V Sandeep Kumar Chief Manager/Mr. KV Rama Krishna Sr. Manager, Canara Bank, Stressed Assets Management Branch, Secunderabad Mobile No: 9858608061/9858737045, during office hours on any working day for further information.

All the other Terms & Conditions of the Auction Sale Notice dated 20.07.2025 remain unchanged. The Bank/Authorized Officer reserves the right to postpone or cancel the auction and conditions of the terms and conditions of the auction without any reason therefor.

DATE:18.08.2025,PLACE:Secunderabad AUTHORISED OFFICER,CANARA BANK

ROUTE MOBILE LIMITED

CIN: L72900AH2004PLC145233

Registered & Corporate Office: Sarfaraj Corporate Park - 4th Dimension, 3rd Floor, Mint Space, Malad (West), Mumbai - 400064.

Tel: (022) 4033 7676 | Fax: (022) 4033 7650 | Email: investors@routemobile.com

Website: www.routemobile.com | Email: investors@routemobile.com

NOTICE OF 21st ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the Twenty First (21st) Annual General Meeting ("AGM") of Route Mobile Limited ("Company") will be held on Friday, September 12, 2025 at 3:30 P.M. (IST) through Video Conference ("VC") Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice convening 21st AGM of the Company. The deemed venue of the Meeting shall be the Registered Office of the Company.

In accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") read with the Rules made thereunder and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024, other Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular") from time to time and circular No. SEBI/HO/CFD/CIR-POD-PI/CIR/2024/133 dated October 1, 2024 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), (together referred as "Applicable Circulars"), pursuant to which companies are allowed to hold AGM through V/O OAVM, up to September 30, 2025, without the physical presence of the Members at a common venue and without sending physical copies of the financial statements (including Board report, Auditor's report or other documents required to be attached therewith).

The Company has emailed the Notice of the 21st AGM along with the link to the Annual Report for FY 2024-25 on August 19, 2025 through electronic mode only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company's Registrar & Transfer Agent (RTA) KFin Technologies Limited ("KFin Technologies") Depository Participant(s) ("DPs"). Further, in accordance with Regulation 36(1) (b) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("Listing Regulations") a letter providing a web link for accessing the Annual Report is being sent to those members who have not registered their email-ids.

The Notice of the 21st AGM along with the Annual Report for the FY 2024-25 are also available on the website of the Company www.routemobile.com/investors, website of BSE Limited at www.bseindia.co.in and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at <https://www.nsdl.com>.

The Board of Directors at its meeting held on May 7, 2025, has recommended a final dividend of 7.2 per equity share of the face value of ₹10 each (20%) for the FY 2024-25. The record date determining the entitlement of members to final dividend for the financial year ended March 31, 2025 is Thursday, August 28, 2025. The payment of dividend shall be made within 30 days of the AGM, subject to the approval of the Members at the AGM.

Instructions for Remote e-Voting and e-Voting during the AGM:

1. In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the Listing Regulations and the General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing remote e-Voting facility to all its Members to cast their vote by electronic means on the resolutions proposed to be passed at the AGM. The Company has engaged NSDL for providing facility for voting through remote e-voting and for participation in the AGM through V/O OAVM.

2. The remote e-voting period commences on Tuesday, September 9, 2025 at 9:00 AM (IST) and will end on Thursday, September 11, 2025 at 5:00 PM (IST). Voting through remote e-voting shall not be allowed beyond 5:00 P.M. (IST) on Thursday, September 11, 2025. E-voting shall be made available at the AGM and the members attending the AGM who have not cast their vote through remote e-voting shall be able to vote at AGM. A Member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.

3. The Cut-off Date for determining the eligibility of members through e-voting and e-voting at AGM is Friday, September 5, 2025 ("Cut-off Date"). A person whose name is recorded on the register of members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off Date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting, as well as voting at the meeting.

4. Members who have acquired shares after dispatch of the Annual Report for the Financial Year 2024-25 through electronic means and before cut-off date are requested to refer the notice of AGM for the process to be adopted for obtaining User ID and Password for casting their vote.

5. The instructions for remote e-voting or e-voting during the AGM for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and shareholders who have not registered their email-ids are provided in the notice of AGM. Members are requested to go through the "Notes" section of the Notice of AGM carefully to read the detailed instructions contained therein.

6. The Board of Directors has appointed Mr. Dhruvil M. Shah (Membership No. : F8021, Certificate of Practice No. : 8978), Partner of M/s. Dhruvil M. Shah & Co. LLP, Practicing Company Secretaries, and in his absence Mr. Dhruvil Ravindra Palay (Membership No. : A61639, Certificate of Practice No. : 281519), Partner of M/s. Dhruvil M. Shah & Co. LLP, Practicing Company Secretaries as the "Scrutiniser" to scrutinise the e-voting process in a fair and transparent manner.

7. In case of any queries/grievances related to e-voting, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual available at the download section of the investors.routemobile.com or call on nos. 022-4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at gsd@nsdl.com.

Shareholders holding shares in electronic form, and who have not updated their email or KYC details are requested to register/update the details in your demat account, as per the process advised by their DP.

The shareholders are requested to note that as per SEBI vide Master Circular No. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/PI/CIR/2024/347 dated May 7, 2024) read with SEBI Circular SEBI/HO/MIRSD/POD-1/PI/CIR/2024/81 dated June 10, 2024, it is mandatory for all shareholders holding shares in physical form to furnish PAN, Contact details (Postal Address with PIN and Mobile Number), bank account details and specimen signature.

The shareholders may update/register the said details in Forms ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13, and all relevant forms with KFinTech. Further, shareholders can also access the relevant forms on the Company's website <https://routemobile.com/register-share-transfer-agent/>.

Further, the concerned folios wherein any of the said details are not registered shall be eligible for any payment including dividend, only through electronic mode with effect from 1st April 2024. An intimation shall be sent by the Company to such shareholders whose details are not registered that their payment to date has been withheld. Further, the same shall be released electronically only upon registering the aforesaid required details.

For the purpose of receiving the Annual Report of financial year 2024-25, you may send an email at investors@routemobile.com.

For Route Mobile Limited Sd/-

Tejas Shah
Company Secretary & Compliance Officer
ICSI Membership No. A34829

Date : August 19, 2025
Place : Mumbai

[illegible]